



HISTORY BY- **SUJEET BAJPAI SIR**



Question No: 1

मैक्स मूलर एक विख्यात हैं :

Max Muller was a famous :

- ✓ (1) जर्मन विद्वान / German scholar
- (2) इटालियन विद्वान / Italian scholar
- (3) फ्रेंच विद्वान / French scholar
- (4) रूसी विद्वान / Russian scholar

Central
Asian
origins

Question No: 2

किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं?

Whose period is referred to as Golden Age of ancient India?

- (1) गुप्त शासन / Gupta
- (2) मौर्य शासन / Maurya
- (3) मुगल शासन / Mughal
- (4) वर्धन शासन / Vardhan

Question No: 3

'ग्रामीण स्वायत्तता' किसके शासनकाल की विशिष्टता थी?

Village Autonomy" was a unique feature of the administrative system of

- (1) चोल / Cholas
- (2) सातवाहन / Satsavahanas
- (3) मौर्य / Mauryas
- (4) कुषाण / ~~Kushalis~~ Kushans

Question No: 4

निम्नलिखित में से 'सत्यमेव जयते' कहाँ से लिया गया है ?

“Satyameva Jayate” has been adopted from

- ✓ (1) मुण्डक उपनिषद / Mundak Upanishad
- (2) प्रश्न उपनिषद / Prashna Upanishad
- (3) तैत्तिरीय उपनिषद / Taittiriya Upanishad
- (4) माण्डूक्य उपनिषद / Mandukya Upanishad

Question No: 5

शाक्य मुनि

'बुद्ध' किस वंश से सम्बन्धित थे ?

Which Clan BUDDHA belonged to ?

- (1) जात्रिक / Gharthika
- (2) मौर्य / Maurya
- (3) साक्य / Sakya
- (4) कुरु / Kuru

Question No: 6

Which Harappan site is located in Haryana?

कौन-सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है?

(1) Dholavira/धौलावीरा →

५३

~~(2) Rakhigarhi/राखीगढ़ी~~

(3) Kalibangan/कालीबंगन →

RJ

(4) Alamgirpur/आलमगीरपुर →

UP

Question No: 7

Who was the ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by Greek ruler of West Asia, Selucus Nicator?

चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम-एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था?

(1) Hiuen Tsang/हुएन त्सांग

(2) Fa-Hien/फा-हियान

(3) Megasthenes/मेगस्थनीज

(4) Al-Biruni/अल-बिरुनी


Harsha


Chandragupt - II


Ist Chinese

medieval

Nanda
dynasty







Mauryan Empire

मौर्य साम्राज्य

7 Chandragupt Maurya

मौर्य साम्राज्य

जान

* संस्थापक – चन्द्रगुप्त मौर्य

मद्रबाहु

* शिक्षक – चाणक्य

★ चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था ।

★ सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा था ।

Mauryan Empire

- Founder – Chandragupta Maurya
- Teacher - Chanakya Chandragupta Maurya is also known as sandrokots.
- Chandragupta had defeated selukas.
- selukas had sent Megsthanese to the court of Chandragupta.

- ★ मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय राजदूत था ।
- ★ मेगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी ।
- ★ चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र तथा प्रधानमंत्री चाणक्य थे ।


- Megasthenes was the first international ambassador to Visit India.
- Megasthenes wrote a book called Indica.
- Chandragupta was the first to establish the All India Empire.
- Chandragupta's capital was Patliputra and Prime Minister Chanakya.

★ चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। (गिरनार, गुजरात)


★ चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) में हुयी थी। ⇒ लेखना

★ चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिन्दुसार सत्ता में आया था।

- Order
- Chandragupta had constructed Sudarshan Lake. (Girnar, Gujarat)
 - Chandragupta died in Shravanbelgola (Karnataka).
 - After Chandragupta's death, his son Bindusar came to power.



chandragupt mauya.



Ami Braham
Ri E E

जवर्गि =) अवर्ति

★ अशोक ने अपने पिता बिन्दुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह का दमन किया था ।

PAK

★ Ashoka had repressed an uprising in Takshashila during the time of his father Bindusar.

अशोक

- ★ इसका आधिकारिक नाम देवनांप्रिय था ।
- ★ अशोक ने कलिंग पर 261 B.C. में आक्रमण किया था और इसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है ।
- ★ अशोक ने उपगुप्त (मोगलीपुत्र) के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था ।

Ashok

- Its official name was ~~Devnamdarling~~.
- It was derived from the records of Ashok Maski and Gurjara.
- Ashoka had invaded Kalinga in 261 B.C. and is known by the 13th inscription. ଅକ୍ଷତ୍ତକା — ଓଡ଼ିଶା
- Ashoka had accepted Buddhism by Upp Gupta (Mogliputta).

devanampriya

ଅମଳ

mp

- ★ अशोक अपनी पत्नी कौरवकी से प्रभावित था ।
- ★ अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी और नेपाल में बौद्ध धर्म आरंभ किया था। (Nepal)
- ★ अशोक के चौथे अभिलेख से धम्म की जानकारी प्राप्त होती है ।
- ★ तीसरी बौद्ध संगीति (251 B.C.) अशोक के समय में हुयी थी। (पाटलीपुत्र)

- Ashok was influenced by his wife Kaurvaki.
- Ashok had travelled to Lumbini and started Buddhism in Nepal.
- The fourth inscription of Ashoka gives information about Dhamma.
- The third Buddhist council (251 B.C.) was in Ashoka's time.
(Patliputra)

राम | RAM

★ अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक लिपियों का प्रयोग कराया था ।

max

1837

★ अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिन्सेप था ।

★ अशोक ने साँची(M.P.) और सारनाथ(U.P.) में स्तम्भ अभिलेखों का निर्माण करवाया था ।

★ अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था ।

- Ashoka used Brahmi, Kharothi, Greek, Aramic scripts in his records.
- The first person to read Ashoka's inscription was James Princep.
- Ashoka had constructed pillar inscriptions at Sanchi (M.P.) and Sarnath (U.P.).
- Ashok had sent his daughter Sanghamitra and son Mahendra to Sri Lanka to spread Buddhism.

> Ashoka ^(मकुन्द) repaired lake
Sudarshan. सुदर्शन.

★ अशोक और इसके पौत्र दशरथ ने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था ।

★ अशोक ने जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी ।

★ मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्द्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी ।

- Ashoka and his grandson Dasrath had built caves for the Ajivak.
- Ashok had established Srinagar in Jammu and Kashmir.
- Brahadratha, the last ruler of the Mauryan dynasty, was murdered by his army chief Pushyamitra Shung.

JAIN RELIGION

जैन धर्म

24

तीर्थंकर

- ★ जैन धर्म में मोहनजोदड़ो के पशुपति की मुहर को प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मानते हैं।
- ★ दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ की चर्चा युजुर्वेद में मिलती है।
- ★ [23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, काशी जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु के थे।

पार्श्वनाथ की पत्नी - प्रभावती

पार्श्वनाथ की माँ - वामा

महावीर के बारे में

- ★ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे।
 - जन्म : कुण्डग्राम (वैशाली)
 - कब : 540 बी.सी.
 - पिता : सिद्धार्थ

कुल	:	ज्ञातृक
भाई	:	नदिवर्धन
माता	:	त्रिशला (लिच्छवी, राज चेतक की बहन)
पत्नी	:	यशोदा
पुत्री	:	अनोज्जा (प्रियदर्शिनी)
दामाद	:	जामिल (प्रथम शिष्य)
मृत्यु	:	पावापुरी (नालंदा)

नोट: जैन धर्म में आत्मा व पुनर्जन्म दोनों माने जाते हैं।

पांच सिद्धान्त

1.अहिंसा, 2.अमृषा, 3.अचौर्य, 4.अपरिग्रह 5.ब्रह्मचर्य (महावीर द्वारा जोड़ा गया)

त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण

जैन धर्म

श्वेतांबर(वस्त्र धारण करते हैं)
हैं)

प्रमुख: स्थूलभद्र

दिगंबर (दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं)

प्रमुख: भद्रबाहू

- ★ महावीर के बाद सुधर्मन अध्यक्ष बना था।
- ★ महावीर के जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था।

➤ Jains consider Pashupati of Mohanjodaro as 1st Tirthankar, Rishabhdev.

➤ 2nd Tirthankar, Ajitnath is mentioned in Yajurveda.

➤ 23rd Tirthankar, Parsvanath was son of Asvasen, King of Kashi.

Parsvanath belonged to ICCHVAKU dynasty. Mother of

Parsvanath was Vama & his wife was Prabhavati.



ABOUT MAHAVIR

➤ He was 24th Tirthankar of Jain religion.

Birth year	540 B.C.
Birth Place	Kund Gram (Vaishali) ✓
Father	Siddhartha
Dynasty	Gyatraka
Brother	Nandivardhan
Mother	Trishala (Sister of Licchavi King Chetak)
Wife	Yashoda ✓
Daughter	Anojja Priyadarshini ✓
Son-in-law	Jamil (1 st Pupil of Mahavir)
Death	Pava-Puri (Nalanda)

लिच्छवि

शिष्य

Bihar

- Mahavir got enlightenment near Rijupalik river in Jambhrik Village.

FIVE VOWS OF JAIN RELIGION:

1. Non-violence. ✓
2. Truth. ✓
3. Non-stealing. ✓
4. Non-possession. (અપરિગ્રહ)
5. Chastity (Added by Mahavir). (વ્રતમય)

THREE JEWELS OF JAIN RELIGION:

1. Right Faith
2. Right Knowledge
3. Right Conduct

JAIN RELIGION IS DIVIDED IN TWO PARTS:

1.Shvetambar :

A) Chief Priest : Sthoolbhadra.

B) They wear white clothes.

2.Digambar :

A) Chief Priest: Bhadrabahu

B) They consider directions as their clothes.

BAUDDHA RELIGION

बौद्ध धर्म

प्रवर्तक	:	गौतम बुद्ध (वंश शाक्य)
बुद्ध के पिता	:	शुद्धोधन (शाक्य कुल, कपिलवस्तु के शासक)
बुद्ध का वास्तविक नाम	:	सिद्धार्थ
जन्म स्थान	:	लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल)
मृत्यु	:	483 बी.सी. कुशीनगर (वर्तमान में दवरिया)
माता	:	महामाया (जन्म के 7वें दिन मृत्यु, कोलिय
वंश की थी)		
पालनकर्ता	:	मौसी प्रजापति गौतमी (संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला)
पत्नी	:	यशोधरा, अन्य नाम - गोपा, बिम्बा आदि
पुत्र	:	राहुल
गुरु	:	आलारकलाम
योग गुरु	:	रुद्रकसकपुप्त
सारथी	:	छन्दक, चन्ना आदि

— Nepal

Bihar

घोड़ा : कन्थक
ज्ञानप्राप्ति : बोधगया में (नदी - निरंजना (फल्गू))
वृक्ष के नीचे : पीपल
महाभिनिष्क्रमण : ग्रह त्याग को कहते हैं।
धर्मचक्र प्रवर्तन : प्रथम उपदेश को कहते हैं। स्थान: सारनाथ
महापरिनिर्वाण : मृत्यु को कहते हैं।
शिष्य : उषालि एवं आनंद
कुशीनगर में चुंद सुनार के यहां भोजन खाने से मृत्यु।

बौद्ध धर्म

हीनयान

धर्म को मूलरूप
से मानते हैं

महायान

बुद्ध को अवतार
मानते हैं

वज्रयान

बुद्ध को अलौकिक
सिद्धियों वाला

कुछ + तात्पर्य
तौलि

मानते हैं।

★ “प्रतीत्य समुत्पाद” : बुद्ध की शिक्षाओं का सार है।

बुद्ध के जीवन की घटनाएं : संबंधित चिन्ह

जन्म : कमल व सांड

गृहत्याग : घोड़ा

ज्ञान : पीपल

निर्वाण : पदचिन्ह

मृत्यु : स्तूप

त्रिरत्न : बुद्ध, धर्म, संघ

★ पुनर्जन्म की मान्यता है जबकि आत्मा की नहीं है।

4

Buddhist Council	Patron	Venue	Chairman
<u>First</u>	<u>Ajatashatru</u>	<u>Rajgriha</u>	<u>Mahakashyapa</u>
Second	Kalashoka	Vaishali	Sabbakami
Third	Ashoka	Patliputra	Mogaliputra
Fourth	Kanishka	Kundalban (Kashmir)	Vasumitra

483 BC

383 BC

251 BC

100 A.D.

Founder	Gautam Buddha
Dynasty	Shakya
Father	Shuddhodhana (King of Kapilvastu)
Real Name of Buddha	Siddhartha
Birth Place	Lumbini (Nepal)
Death	Kushinagar (Devariya) in 483 B.C.
Mother	Mahamaya of Koliya Dynasty (She Died on 7 th day of His Birth)
Brought up by	Aunt Prajapati Gautmi She First Women to get permission to enter in Sangha
Wife	Yashodhara (Other Names- Gopa, Bimba)
Son	Rahul
Yog Teacher	Rudrak Ramputta
Charioteer	Chandak, Channa etc.

Charioteer	Chandak, Channa etc.
Horse	Kanthak
Place of Enlightenment	Bodhgaya
River	Niranjana(Falgu)
Tree	Pipal
Maha Bhinish Kraman	Leaving of Home
Dharmachakra	1 st Surmon (Place: Sarnath)

Pravrton	
Mahaparinirvan	Death
Pupil	Upali and Ananda

BAUDDHA RELIGION IS DIVIDED IN THREE PARTS:

1ST- Heenyan = Oldes form of religion.

2ND- Mahayam = Buddha considered as a Carnation.

3RD- Vajrayan = Buddha considered man of magic. Tara is related with Vajrayan.

** PratityaSamutpad- Gist of Buddha's teachings.

**** PratityaSamutpad- Gist of Buddha's teachings.**

LIFE EVENTS OF BUDDHA	SYMBOL
Birth	Lotus and Ox
Leaving of Home	Horse
Enlightenment	Pipal
Nirvana	Foot Step
Death	Stupa
Three Jewels	Buddha, Dhamma, Sangh

**** Rebirth is considered in Bauddha religion but Soul is not considered in Bauddha religion.**